



तमसो मा ज्योतिर्गमय
श्रीकान्तो लोपनीन्द्रपति लिटिबाल्यु टोल्डो
Founders: Dr Krishna Kumar & Chitra Kumar

GMLC FOUNDERS
Foundation Day : 29th April 1995



Work & Life Of Dr Krishna Kumar
8th November 2015

Shri Venkateswara Balaji Temple

Dudley Road East, Tividale, West Midlands, B69 3DU



Shri Venkateswara (Balaji) Temple of UK



तमसो मा ज्योतिर्गमय
Gitanjali Multilingual Literary Circle
Funded by Dr. Zil-e-Kausar & Centre for Women

GITANJALI MULTILINGUAL LITERARY CIRCLE

(GLMC)

20th Anniversary

1995-2015

Gitanjali Multilingual Literary Circle
Celebrating 20 years of service to Community

Supported by the Trustees and Management Committee of Shri Venkateshwara Balaji Temple

Cordially invites you, your family and friends

For a Programme on Life and Work of Dr. Krishna Kumar, founder of Gitanjali Multilingual
Multilingual Circle

At 1830 hrs on Sunday the 8th November 2015
(Tea and soft drinks from 1800 hrs)

At Shri Venkateshwara Balaji Temple Community Hall, Dudley Road East, Tividale,
Birmingham B69 3DU

- 1830 hrs Welcome and Programme Introduction by Dr. Krishna Kanhaiya
- 1835 hrs Programme conducted by Mr. Sanjay Sharma of BBC Asian Network
The Chief Guest :CG of Birmingham Mr. J.K.Sharma,
Special Guests: Lord Lieutenant Paul Sabapathy, Mr. Harmohinder Bhatia 'Upashak', Dr. V.P.N.Rao,
Deputy Lord Lieutenant Mrs. Satinder Kaur Taunque, Deputy Lord Lieutenant Mr. Jagjit Singh Taunque
Dr. Nand K.Srivastava, Mr. Ramesh Srivastava Ex Mayor of Rugby and Piali Ray Director of Sampad
- 1840 hrs Lighting of Lamp by The Chief Guest CG of Birmingham Mr. J.K.Sharma, Lord Lieutenant Paul Sabhapati,
Mr. Harmohinder Bhatia 'Upashak', Dr. V.P.N.Rao, Mrs. Satinder Taunque, Dr. Nand K.Srivastava,
Mr. Ramesh Srivastava and Piali Ray
- 1845 hrs Vandana by Mrs. Beauty Sinha
- 1850 hrs Recital of Gitanjali's poem in English by Miss Madeeha Saher and its translation in Hindi by Mrs. Rama Joshi
- 1900 hrs The Award Ceremony, award presented by the chief guest CG of Birmingham Mr. J.K.Sharma and other special guests
- 1910 hrs Presentation on Life of Dr. Krishna Kumar
- 1915 hrs Dr. Krishna Kumar as a poet presented by Mrs Swaran Talwar
- 1920 hrs Dr. Krishna Kumar as an Essayist presented by Dr. Vandana Mukesh Sharma
- 1925 hrs Dr. Krishna Kumar as the founder of Gitanjali Multilingual Literary Circle presented by Mrs Rama Joshi
- 1930 hrs Dr. Krishna Kumar as a Story Writer presented by Dr. Vandana Mukesh Sharma
- 1935 hrs An address by the Chief Guest CG of Birmingham Mr. J.K.Sharma
- 1945 hrs Reflections and short speeches by Lord Lieutenant Paul Sabapathy, Deputy Lord Lieutenant Mrs Satinder
Taunque and Deputy Lord Lieutenant Mr Jagjit Singh Taunque, Ex Mayor of Rugby Mr Ramesh Srivastava,
General Secretary of SNM Mr. Harmohinder Singh Bhatia 'Upashak', Trustee Of Balaji Temple Dr. V.P.N.Rao,
Director of Sampad Mrs Piali Ray, Dr. Nand.K.Srivastava, Ms Madeeha Saher Chairperson Gitanjali Circle
for Young Creative Writer and Dr. Atul Kumar Beurg
- 2100 hrs Responses by the Co-founder Mrs Chitra Kumar and the founder Dr. Krishna Kumar
- 2115 hrs Vote of thanks by Dr. Anand Kumar Sinha
- 2120 hrs Close followed by welcome vegetarian meal by courtesy of Management of Shri Venkateshwara Balaji Temple

20th ANNIVERSARY

(1995-2015)



तमसो मा ज्योतिर्गमय
शंकरगुप्तो लखनौवासी विद्वान्मनु टाण्डोल
Founders: Dr. Khushu Kumar & Chitra Kumar

Aim:

To create cohesion and better understanding between people of all ages of the host community and people of Indian sub-continent through literature, culture and religion.

Background:

The group was formally inaugurated in 1995 on 20th October by the then High Commissioner of India in London late Dr. L. M. Singhvi with the above aim. The group derives inspirations from Gitanjali, a teenager, who died of cancer in 1977 but left behind the most powerful, spiritual and invigorating moving poems in English language. The group has its branches in India with its head office in Ayodhya. We proudly invite you to share with us its yearlong celebration to commemorate our 20th anniversary as per programme outline given in the leaflet.

20TH ANNIVERSARY PROGRAMMES

Year 2015

1. The Inaugural Programme and Award Ceremony

Date: 18th April 2015 (Saturday)

Time: 1700 hrs to 2100 hrs (Tea/Coffee Reception 1600 hrs to 1700 hrs)

Venue: Sant Nirankari Satsang Bhawan, Great Western Street (Off Potters Lane)

Wednesbury, West Midlands WS10 0AS, Ph: 0121-505-4005

Chief Guest: Consul General of Birmingham Mr. J.K. Sharma

2. Multilingual Poetry Programme and Award Ceremony Hosted by the Mayor of Rugby

Date: 3rd May 2015 (Sunday)

Time: 1400 hrs to 1730 hrs (Tea/Coffee Reception 1300 hrs to 1400 hrs)

Venue: Rugby Borough Council Town Hall, Evreux Way, Rugby CV21 2RR; Tel: 01788 533 523

Chief Guest: Consul General of Birmingham Mr. J.K. Sharma

3. Programme for Young Creative Writers (6-20 Years) and Award Ceremony

Date: 11th July 2015 (Saturday)

Time: 1100 hrs to 1400 hrs (Tea and soft drinks from 1030 hrs)

Venue: CGI Birmingham, 20 Augusta Street, Jewellery Quarters, Hockley, Birmingham B18 6JL

Chief Guest: Consul General of Birmingham Mr. J.K. Sharma

20th ANNIVERSARY (1995-2015)



तमसो मा ज्योतिर्गमय
ज्ञानं ब्रह्मन् प्रोचोक्षते।
Founders: Dr Krishna Kumar & Chitra Kumar

4. National Multilingual Kavi Durbar and Award Ceremony

Date: 19th September 2015 (Saturday)

Time: 1 830 hrs to 2130 hrs (tea from 1800 hrs)

Venue: CGI Birmingham, 20 Augusta Street, Jewellery Quarters,
Hockley, Birmingham B18 6JL

Chief Guest: Consul General of Birmingham Mr.J.K.Sharma

5. Life and Work of Dr. Krishna Kumar, founder of GMLC and Award Ceremony

Date: 8th November 2015 (Sunday)

Time: 1830 hrs to 2130 hrs (tea from 1800 hrs)

Venue: Shree Venkateswara Balaji Temple Community Hall, Dudley
Road East, Tividale, Birmingham B69 3DU

Chief Guest: Consul General of Birmingham Mr.J.K.Sharma

Year 2016

6. International Multilingual Kavi Durbar and Award Ceremony

Date: 2nd April 2016 (Saturday)

Time: 1830 hrs to 2130 hrs (tea from 1800 hrs)

Venue: CGI Birmingham, 20 Augusta Street, Jewellery Quarters,
Hockley, Birmingham B18 6JL

Chief Guest: Consul General of Birmingham Mr.J.K.Sharma

7. National Poetry and Story Workshop and Award Ceremony

Date: 18th June 2016 (Saturday)





Time: 1830 hrs to 2130 hrs (tea from 1800 hrs)

Venue: Shree Geeta Bhawan, 107-117 Heathfield Road, Birmingham B19 1HL






Chief Guest: Consul General of Birmingham Mr.J.K.Sharma

We will be grateful for any donation to help us expand our activity, please make the cheque payable to Gitanjali Multilingual Literary Circle and send to Mrs Rama Joshi at 17 The Vale, Moseley, Birmingham B11 4EN or pay directly in GMLC Account No: 5609144, Sort Code: 60 20 48. For any query please contact either Dr. Krishna Kanhaiya (07803 598165) or Dr. Krishna Kumar (07557 505170).

Books Published by: Dr. Krishna Kumar



Books Edited by: Dr. Krishna Kumar



Dr. Krishna Kumar

- National Integration Award:- by the CM of Madhya Pradesh (2004)
- Pravasi Hindi Sewa Samman:- by Aksharam Delhi(2006 and 2012)
- Pravasi Bahrtiya Bhushan Samman:-UP Hindi Sansthan (2006)
- Maharshi Agastya Samman:- by Ramayana Kendra Mauritius(2008)
- Vishwa Hindi Samman:- by Govt. of India(2012)
- Haivansh Rai Bachchan UK Hindi Lekhan Samman:- By HCI (2012)
- Quantum Sahitya-Gaurav Samman:-(2014)
- Dr.Dukhan Ram Vigyan Hindi-Sewa Samman, Itawa: (2014)

Contents

Messages from:

1.	Consul General Mr. J.K.Sharma	1
2.	Governor of West Bengal Mr.K.N.Tripathi	2
3.	Deputy Lord Lieutenant Mrs Satinder Kaur Taunque	3
4.	Dr. Nand K.Srivastava	4
5.	Mr. H.S.Bhatia	5
6.	Ex Mayor of Rugby Mr. Ramesh Srivastava	6
7.	A colleague from Singapore Prof. D.P.Mital	7
8.	Dr. Krishna Kanhaiya	8
9.	Elder brother of Dr.Kumar, Mr.H.N.Khare	9
10.	Niece of Dr.Kumar, Mrs Rachna Verma	10
11.	Childhood friend of Dr.Kumar, Mr.P.K.Saxena	12
12.	Ms Nasreen Akhtar, Mr Narendra Grover, Dr. Subodh Jain and Dr. Anand Kumar Sinha	14
13	Ms Kadambaree Mehra	15
14	Ms Madeeha Saher and MsVibha Cale	16
15	Son of Dr. Kumar, Dr Atul Kumar Beurg	17
16	Mrs Usha Verma, Mrs Shail Agarwal, Mr Praful Modi and Suraiya Makhdoom	19
17	Poem from Mr Pran Sharma	20
18	Poems from Mrs Swaran Talwar and Parvez Muzaffar	21
19	An article by Mrs Rama Joshi: Dr. Kumar the founder	22
20	An article by Mrs Swaran Talwar:Dr. Kumar as a poet	23
21	An article by Dr Vandana Mukesh Sharma:Dr. Kumar as An essayist	26



भारत का प्रधान कौंसल
बर्मिंघम
Consul General of India
Birmingham

अक्तूबर 27, 2015.

प्रिय डॉ. कृष्ण कन्हैया जी,

यह मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि गीतांजलि बहुभाषीय साहित्यिक समुदाय अपनी बीसवीं वर्षगांठ मना रहा है और इस अवसर पर अपने संस्थापक डॉ. कृष्ण कुमार जी को उनके योगदान के लिए सम्मानित करने जा रहा है।

डॉ. कृष्ण कुमार जी भारतीय समुदाय के दिग्गजों में से एक हैं और उन्होंने 25 से अधिक वर्षों से यूनाइटेड किंगडम में हिंदी को बढ़ावा देने और भारतीय संस्कृति के लिए अग्रणी कार्य किया है। उन्होंने अठारह से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और विश्व हिंदी सम्मान सहित कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। 1995 में उनके द्वारा स्थापित गीतांजलि बहुभाषी साहित्यिक समुदाय ने लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की दिशा में योगदान दिया है और हमारे युवाओं सहित कई लेखकों और कवियों को प्रेरित किया है।

यूनाइटेड किंगडम में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए और हमारी संस्कृति के प्रति विलक्षण योगदान के लिए डॉ. कृष्ण कुमार जी और गीतांजलि बहुभाषी साहित्यिक समुदाय को हार्दिक बधाई।

शुभकामनाओं सहित,

जितेन्द्र शर्मा
(जितेन्द्र शर्मा)

27/10/2015

डॉ. कृष्ण कन्हैया,
महासचिव,
गीतांजलि बहुभाषी साहित्यिक समुदाय,
बर्मिंघम।



I came into contact with Dr. Krishna Kumar of Birmingham, UK, for the first time during my visit there to participate in a Kavi Sammelan organized by Gitanjali Multi-lingual Society, Birmingham. Ever since then our friendship grew stronger day by day.

Dr. Krishna Kumar is committed to propagation of Hindi literature and language in the UK. He himself has authored several books in Hindi, including his poems' collections. His poems have a spiritual echo and are addressed to the cause of human welfare, laying emphasis on morality and ethics too. The philosophy of Dr. Kumar is based on omnipresent God and His message for the welfare of mankind. The effect of his writings on the readers is indeed telling.

Dr. Kumar has a rare organizational capability. He has a knack of pursuing people to act with unanimity for any cause. He is polite, yet strict disciplinarian. He is discreet but dislikes discrimination.

He is the founder President of Gitanjali Multi-lingual Society. The zeal with which he teamed together people from various occupations, castes and creed for establishing, and thereafter continuing, this organization, is really admirable. He has initiated a number of persons into writing Hindi poems, short stories and novels. Several projects for propagation of Hindi language in UK are due to his thoughtful contributions.

As a person Dr. Krishna Kumar is very polite, affectionate and always ready to extend his helping hand to anyone in need. He is a good host and never minds his personal inconvenience to render assistance to his friends. He is honestly dedicated to the cause of Hindi and is always anxious to go deep into various debatable points and subjects of research in matters related to Hindi literature. His efforts for Hindi have been recognized in the form of numerous awards given to, and honour conferred on, him.

It would be improper and unpardonable for me if I do not make any mention of Smt. Chitra Kumar, the wife and the source of strength to Dr. Krishna Kumar. To enable Dr. Kumar to go ahead with his works and projects relating to Hindi, she has been a willing partner, promoter and assistant. She has been the kingpin of the hospitality so readily available at Dr. Kumar's house. A busy housewife, yet finding time to work with, and go along, Dr. Krishna Kumar may be, to a great extent, an assessment of her contribution to the success of Dr. Kumar.

My best wishes to the really admirable couple Dr. Krishna Kumar and Mrs. Chitra Kumar.


Keshari Nath Tripathi

31 October, 2015

*Mrs Satinder Kaur Taunque OBE
Deputy Lieutenant of West Midlands*



29 October 2015

My heartiest congratulations on the 20th anniversary of Gitanjali Multilingual Literary Circle. I have known Dr. Krishna Kumar for over 15 years. Dr. Krishna Kumar is the founder and chairman of Gitanjali Multilingual Literary Circle. He is a known poet and writer in Hindi language. Dr. Kumar worked very hard to promote the writers of different languages and has provided a platform for all aspiring writers.

Dr. Kumar has been a literary role model for all generations and is respected by all faith communities. His efforts in uniting different communities through literature have been tremendous and highly appreciated.

GMLC has progressed under Dr. Kumar's chairmanship. Dr. Kumar had been honoured by the Indian High Commission for his outstanding work in promoting Hindi language in UK.

I wish Dr. Kumar many more successes in the future and wish the Gitanjali Multilingual Literary Circle a glorious future and continued success.

S. K. Taunque

Mrs Satinder Kaur Taunque OBE. DL.
Deputy Lieutenant of West Midlands

Dr. Nand K. Srivastava MBE

(Member of the Order of the British Empire)


Consultant in Public Health Medicine (*Retd.*)

29th October 2015.

It is said that a genius is seldom to enlighten the universe. Here is a genius, whose achievements, if reduced into black and white, may only create imaginative and visionary visuals but his performance would be life adventure. This precisely has happened in the life of **Dr Krishna Kumar**. I am associated with him for more than 30 years in the surrounding area of Birmingham, West Midlands. He is first a family man, a professional, social activist, a preacher, an educationist and well known as 'help at hand' for all. He has devoted his time for the welfare and upliftment of individuals, community and many other organisations like "**Gitanjali Multilingual Literary Circle**" (GMLC). He is the founder and Chairman of this organisation, which has learnt to thrive from crawling to stand, walk and now ready to run in the last 20 years under his supervision with the support of dedicated band of multi lingual people. We are going to celebrate 20th Anniversary in near future and honour Dr Kumar for his continued endeavor to inspire and ignite the fellow members. He is a man of enormous vision and courage and therefore loved by one and all.

"The aim of this literary circle is to create cohesion and better understanding between people of all ages of the host community and people of Indian sub-continent through literature, culture and religion."

I add my personal congratulations to **Dr. Kumar** for his dogged determination and utmost devotion to raise the profile of GMLC. He has given all of us a wake up call to start spreading the brotherly love around in the best interest of the welfare of humanity.



Dr. Nand Krishna Srivastava MBE
Patron and trustees of Charitable Organisations.

Dr Krishna Kumar an inspirational community leader, who over several decades been instrumental in encouraging the arts and literature in the United Kingdom and across the world. He has spent so much time in organising events and activities to promote this cause with dedication and a complete sense of devotion.

The establishment of the Geetanjali multi lingual circle simply illustrates how Dr Kumar has strived to bring unity into the community. His intention was only to bind the diverse and colourful fabric of society together, through the written word. Reflecting upon life through the power of the pen has immense effect, the results of which we see today.

Geetanjali multi lingual circle has promoted understanding between communities through the appreciation of language and culture, which has always resonated with the message of oneness of the sant nirankari mission and this effort, is valued. In a society which day by day appears more and more fragmented such exceptional work must be appreciated, as it does truly make a difference.

Dr Kumar has commissioned and published a number of books and in particular stood by a humanitarian message of nirankari baba ji on the theme, "kujh vi bano mubarak lekin pehley insaan bano." (Become anything in life, but first become humane) Which was very widely appreciated. The writing of Dr Kumar has always been very rich in nature walking the reader through all the aspects of life, but more importantly has been the expression of such subject through practical living.

The Sant Nirankari Mission was honoured to collaborate with Geetanjali multi lingual circle to deliver the international Ramayana conference, multi lingual conference and international Hindi conference together with numerous poetic symposiums, at our centres in the UK. This too had a wide reaching impact on community cohesion.

I have had the privilege to work with this inspiring individual for many years and I hope the journey ahead continues to bring good health, prosperity and continued deliberation of how language can bind society, as we all slowly become technological and digital citizens of the world.

To end it is said that behind every successful writer rests the blessing of an esteemed partner and the contribution of Chitra Ji is noted without whose support, perhaps Such achievements would not be possible.

I offer my sincere congratulations and bow before you both.

HS Bhatia
General Secretary SNM UK

Message from Ramesh Srivastava Ex-Mayor of Rugby

First my wife Manju and I would like to thank Gitanjali Multilingual Literary Circle UK for organising this ceremony for Dr Krishna Kumar, founder of GMLC. I am delighted and so honoured to be part of this celebration.

We congratulate Dr Kumar on this well-deserved lifelong award for his contribution to GMLC, his literary achievements as a poet and his well-recognised educational career.

It has been my privilege to meet Dr Krishna Kumar many times in recent years and to listen to his literary work.

Dr Kumar has an inspiring vision of greater cohesion and better understanding between people from the host community and people from the Indian sub-continent through language, literature, culture and religion. We all applaud his dedication to serving the community, and encouraging people to express themselves in Indian languages.

It has been real pleasure, too, to meet Mrs Chitra Kumar, who is great company and a wonderful host.

We feel proud to know you both and to have friends like you. Thank you.

यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरे परम मित्र डाक्टर कृष्ण कुमार के बारे में प्रकाश डालने का काम दिया गया है और मैं उनके बारे में कुछ लिख रहा हूँ।

हमारी पहली मुलाकात सिंगापुर देश में जुलाई २८ १९८३ में हुई थी। मैं भारत से और कृष्ण कुमार साहब इंग्लैंड से कार्य करने सिंगापुर आये थे। एक दिन मैं अपने परिवार के साथ बाहर टहल रहा था कि अचानक एक कार हमारे पास आकर रुकी और एक सज्जन कार से निकल कर वार्तालाप करने लगे और अपना परिचय दिया। वह डाक्टर कृष्ण कुमार जी ही थे। इसी वार्तालाप के दौरान उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को भोजन का निमंत्रण दे दिया। एक अनजान देश में पहले दिन इतना अपनत्व प्राप्त करके मैं भाव विभोर हो गया। वह लम्हा मेरे दिल में हमेशा जीवित रहता है। उसके बाद वह हमारी हर मदद के लिये हमेशा तत्पर रहते थे। उनकी पत्नी चित्रा जी तो मदद करने में उनसे दोकदम आगे थीं। वह दूसरों की हर तरह से मदद करने को तैयार रहती थी। एक कहावत है " राम मिलाई जोड़ी "। उन्होंने हमारा हर तरह से मार्गदर्शन किया। जगह के आभाव में मैं बहुत अधिक नहीं लिख पा रहा हूँ।

अब मैं उनकी उपलब्धिओं पर भी कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। १९८३ में सिंगापुर में ननयांग तकनीकी संस्थान एक छोटी सी संस्थान थी। कृष्ण कुमार जी ने उस संस्थान को बढ़ाने में अपना जी जान लगा दिया और दिन रात कठिन परिश्रम कर के शिक्षा , अनुसन्धान तथा नए विषयों को सुधारने में बहुत योगदान दिया और संस्थान को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया।

अपने छः साल के अंतराल में उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सम्मलेन का आयोजन किया। उनका यह प्रयास ननयांग तकनीकी संस्थान को नयी इंजीनियरिंग ऊंचाई पर ले गया। ननयांग संस्थान को अनुसन्धान में एक नया नाम मिला। शिक्षा जगत में केवल सिंगापुर में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी सिंगापुर को नयी पहिचान मिली। ईश्वर की कृपा से यह सम्मलेन काफी लाभदायक रहा। यह सम्मलेन अभी भी हर दो साल में आयोजित होता है। कुछ समय उपरांत यह संस्थान एक महाविद्यालय बन गया। इसमें कुमार साहब का सहयोग भुलाया नहीं जा सकता है।

इतना ही नहीं, कृष्ण कुमार जी ने बीओमेडिकल इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन में भी बहुत प्रसन्निय कार्य किया था। इंजीनियरिंग अनुसन्धान के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रह है। इंजीनियरिंग संस्थान तथा सिंगापुर जेनरल हस्पताल के साथ का कोलोबोरेशन उस समय बहुत महत्वपूर्ण रहा कुमार साहब ने अपने खाली समय का प्रयोग संस्थान से जुड़े इंस्ट्री के साथ नए विषय पढ़ा कर किया।

उनका या इनिशिएटिव सिंगापुर की दूसरी संस्थानों ने भी बहुत सराहा।

संक्षेप में उन्होंने अपना और अपने परिवार का हित परे रख कर विद्यार्थियों तथा मित्रजनों की सदैव सहायता की और आज भी वह इसी मार्ग पर अग्रसित हैं।

मेरी शुभकामनाएँ हमेशा उनके साथ रहेंगी।

दिनेश प्रकाश मित्तल

सहयोगी

कृष्ण कुमार जी से मेरी पहली बातचीत १९९५ के अप्रैल महीने में टेलीफोन पर हुई थी जब वो गीतांजलि संस्था का 'इन्फॉर्मल फंक्शन' कर रहे थे और मुझे भी आमंत्रित करना चाहते थे। मेरी गज़ल उन्होंने एक्सेल रेडियो पर सुनी थी और मुझे गीतांजलि से जुड़ने का आग्रह किया था। मैं कुछ महीनों के लिए अपने FRCS परीक्षा के सिलसिले में UK आया था और मैं अपनी शैक्षणिक वयस्तता की वज़ह से इस संस्था से उस वक़्त नहीं जुड़ पाया जिसका मुझे अबतक खेद है ! फिर १० सालों के बाद उनसे मेरी प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात २००५ में गीतांजलि के एक फंक्शन में दलजीत के घर पर हुई। पहली नज़र में ही वो मुझे एक शांत,शालीन,परिपक्व, सम्मानित और साहित्य के प्रति समर्पित व्यक्ति लगे। प्रारंभिक दौर में महीने-दो महीने में एक बार मुलाकात होती थी पर जब विचार मिलने लगे तो उनसे मिलने का सिलसिला और जल्दी-जल्दी होने लगा और फिर मैं एक छोटे भाई की तरह उनसे पारिवारिक सदस्य के रूप में घुल गया और साथ-साथ साहित्यिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी जुड़ने लगा जो सम्बन्ध अबतक बरकरार हैं। मेरी किताब 'किताब ज़िंदगी की' के प्रकाशन के समय उनके उल्लेखनीय योगदान को मैं अब भी तहे-दिल से सराहता हूँ। उनसे फिर घनिष्टता बढ़ी और उनके साथ स्थानीय और राष्ट्रीय हिंदी के कार्यक्रम के सिलसिले में और जुड़ने का मौक़ा मिला और गीतांजलि का फिर मैं एक सक्रीय सदस्य हो गया। २०१२ में मुझे गीतांजलि के सचिव का कार्यभार दिया गया और मैं उनके साथ कंधे से कन्धा मिलाकर अब भी चल रहा हूँ।

गज़ब की शक्ति, स्फूर्ति और लगन देखा हैं इनमें। उनकी उम्र कभी भी उनके आड़े हाथ नहीं आयी। कभी - कभी मेरा चिकित्सक मन उन्हें उनकी अस्वस्थता की वज़ह से नसीहत देने को करता था पर हिंदी और दूसरे भारतीय भाषाओं के प्रचार- प्रसार में उनकी रूचि और आत्मीय लगन को देख कर मैं कुछ कहने से रुक जाता था। एक दिन मैंने उनसे साहस करके एकांत में इस बात की चर्चा भी की पर वो हंस कर बात टाल गए, बोले जब वक़्त आयेगा तो विश्राम ले लूँगा अभी शरीर में ताकत है तो सेवा करने दो---

वो मेरे ही नहीं बल्कि मेरी तरह कितने लोगों के प्रेरणाश्रोत रहे हैं। मैं इस कर्मठ और असाधारण व्यक्ति के अथक जज़बे को नमन करता हूँ

मैं उनकी साहित्यिक उपलब्धिओं के बारे में जानबूझ कर कुछ नहीं कहा, हमारे गीतांजलि के और माननीय सदस्यों ने उनकी हर विधाओं के बारे में भरपूर जानकारी दी है। मेरी यह कुछ साधारण बातें उनके असाधारण व्यक्तित्व की बस एक झाँकी है। मैं हमेशा यह दो पंक्तियाँ उनके बारे में कहता हूँ और इसी से अंत भी करना चाहूँगा कि:-

"वो अकेला चला था जानिबे-मंज़िल मगर लोग आते गए, और कारवां बनता गया"

कृष्ण कन्हैया
सचिव

गीतांजलि बहुभाषीय साहित्यिक समुदाय
बिर्मिंघम यूके

Dr. Kumar is a founder member of Gitanjali Multilingual Literacy Circle .The circle has decided to remember the life and work of Dr. Kumar on its 20th anniversary . Members of the circle know Dr. Kumar , the quality of his poems ,his writings and views on lingual harmony, and the importance of Hindi language and literature in the advancement of Indian culture and unity .All this contribution of Dr. Kumar has come from late part of his life .In his earlier part of life he was a completely different person ,I being his elder brother, about 7 years senior, can with some authority say about his achievements and sensitivities of tender age ,of which he may not be having a memory . He was very enthusiastic in celebrating religious functions like Ramlila during Dussehra festival and bursting crackers during Diwali, playing with colours during Holi . He was very good in studies and used to write poems as a child which perhaps later connected him with Gitanjali poems.

In his later life when he went for University education ,he came to realise the cruelty of financial limitations in life and started writing on social inequalities .This alerted the elders including me and we literally scolded him to desist from this tendency and devout on his studies we wanted him to become an engineer so that our family and financial position improves in the society .Dr Kumar loved mother a lot .whatever she used to say ,would become an order for him. When she told him this desire to see him become an engineer ,he left everything in life and with one goal in mind ,he became an engineer went to U.K. ,did his P.H.D in engineering .The rest of his life is very well known to members of the circle .Now what Dr Kumar is ,what are his thoughts, what are his feelings ,what he wants to achieve is all reflected in his poems and writings .He is an honest person .Every word that he utters comes from his heart .Read him ,he hides nothing.

H.N Khare (Ghanshyam)

आदरणीय चाचा जी को समर्पित दो शब्द -

यदि कोई मुझसे पूछे कि मेरे जीवन में वे कुछ लोग कौन हैं, जिनका प्रभाव मुझ पर पड़ा या जिन्हें मैं अनुकरणीय माना तो मैं उनमें अपनी दादी, पापा, मम्मी, अपनी सास और किशन चाचा का नाम बड़े गर्व के साथ लेना चाहूँगी। मैं तो मैं बहुत छोटी थी जब वे विदेश चले गए। परन्तु उनकी काम के प्रति लगन, दूसरों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहना, परिवार में संघर्ष कर रहे लोगों को संबल देना इत्यादि ने मुझे बहुत प्रभावित किया। यही नहीं उनकी उससे भी बड़ी आकर्षित करने वाली बात है, उनकी सादगी एवं आदर्श, परंपराओं एवं चर्म में उनकी आस्था। जिस अनुशासन नियम एवं संयम का पालन उन्होंने विदेश में रहते हुए कर लिया वह हर किसी के बस की बात नहीं। यदि सच कहूँ तो वे एक योद्धा हैं। सभी विषय परिस्थितियों के बीच विदेश जाना और वहाँ अपनी भारतीयता को बनाए रखना अपने आदर्शों और मूल्यों से कभी समझौता न करना, यह सब एक योद्धा ही कर सकता है। सुबह 4 बजे उठना, रामायण पढ़े बिना पानी भी न पीना, हमेशा कुछ सोचना और सार्थक कुछ करने के लिए बैठना

रहना, कभी न थकना, निःस्वार्थ भाव से हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने का अथक प्रयास करना - मैंने उन्हें हमेशा यही करते पाया। शायद यही वजह है कि जो भी उनसे एक बार मिल लेता है, कभी भूल नहीं पाता है। अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ कि पूरा तो नहीं पर 'बहुत कुछ' ऐसा ही करने का निश्चय मेरा भी है।

पप्पी (रचना वर्मा)

भोपाल

27.10.15

मेरे बालसखा — डॉ० कृष्ण कुमार

इंजीनियर और वैज्ञानिक से विख्यात

साहित्यकार बने डॉ० कृष्ण कुमार, जिन्हें मैं घरेलू नाम — किशन से आज भी सम्बोधित करता हूँ, से मेरी मित्रता सन् 1955-56 में हुई, जब हम दोनों बहराइच (उत्तर प्रदेश) के राजकीय इंटर कालेज में कक्षा 10 के विद्यार्थी थे। किशन और मैं 18 क्लास के अपने-अपने सेक्शन में फर्स्ट पोजीशन पाने से प्रिंसिपल द्वारा शार्वजनिक रूप से सम्मानित किए गए थे। मैट्रिक परीक्षा में भी स्कूल से केवल हम दोनों ही यू०पी० बोर्ड की मेरिट लिस्ट में स्थान बनाकर स्कारलरशिप प्राप्त कर सके थे। अतः इंटरमीडिएट के दो वर्षों में हमारी मित्रता इतनी प्रगाढ़ हो गई कि दोनों एक दूसरे के पूरक समझे जाने लगे। हमारे पारिवारिक सम्बन्ध भी ऐसे हो गए थे कि जब किशन I.I.T. मद्रास में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के कारण रक्षा बन्धन पर घर नहीं पहुंच पाते थे, तो उन की शक्तियाँ भी बहनें मेरी कलाई पर बँधती थीं।

मैंने 14 वर्ष की अवस्था से ही कविताएं लिखना प्रारम्भ कर दिया था, जिसे बाद में किशन ने भी अपना लिया और लखनऊ में B.Sc. की पढ़ाई के दौरान उन्होंने शताधिक कविताएं लिखीं, किन्तु प्रकाशनार्थ कहीं नहीं भेजीं। कुछ दिन मेरे साथ कविताओं में ही पत्र-व्यवहार भी चला। व्याख्यान कला में भी वह प्रवीण थे, अतः अन्तर-विद्यालय वाक्-प्रतियोगिताओं में हम दोनों ही अपने विद्यालय का प्रतिनिधित्व करते थे।

आज डॉ० कृष्ण कुमार की ख्याति अनेक देशों में फैल चुकी है, किन्तु व्यावसायिक और साहित्यिक उपलब्धियों से इतर इनमें कुछ ऐसे विशिष्ट गुण हैं, जिनसे सम्भवतः सभी लोग परिचित न होंगे।—

ऊँची सेंच — परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने पर भी इन्होंने सरकारी लोन लेकर I.I.T. से B.Tech. की पढ़ाई पूरी की, किन्तु उससे भी सन्तुष्ट न हुए। अतः कुछ काल दिल्ली में सर्विस करके इंग्लैण्ड चले गए, जहाँ M.Sc. (Tech.) और Ph.D. किया।

आदर्शों पर अडिगता — डॉ० कृष्ण कुमार जीवन में सदैव अपने आदर्शों पर अडिग रहे। अपने विवाह में किसी भी दबाव या अनुरोध को न स्वीकारते हुए केवल 10 बाराती ले गए, और

भारतीय संस्कृति और हिन्दी से लगाव — लगभग 46 वर्ष स्थायी रूप से विदेश में निवास करने के बाद भी भारतीय संस्कृति और धार्मिक कर्मकाण्डों में गहरा विश्वास और अभिरुचि है। विगत 20 वर्षों से 'गीताञ्जलि' के माध्यम से हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं की सेवा ले जा रहा है। आप्रवासी भारतीयों के सम्मेलन में अध्यक्ष-सैम पित्रोया से असहमति जताकर हिन्दी के पक्ष में वाक-आडट करके समस्त भारत-वासियों को गौरवान्वित किया।

सच्ची मित्रता — यद्यपि हम दोनों मात्र दो वर्ष ही एक नगर में साथ रहे; किन्तु बाल्यावस्था की यह मैत्री 60 वर्षों के लम्बे अन्तराल में कभी तनिक भी कमजोर न हुई। ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि कृष्ण कुमार भारत पहुँचे हों और मुझसे न मिले हों, भले ही मैं किसी भी नगर में रहा या वह कितने ही व्यस्त रहे। माँसाहारी परिवार में पले होने पर भी केवल मेरे आग्रह पर शाकाहारी बने, ते अपरिहार्य कारण से पुनः माँसाहार लेने के पूर्व मुझसे अनुमति लेना आवश्यक समझा। डॉ० कृष्ण कुमार में ऐसा और भी बहुत कुछ है, जो उन्हें सामान्य से इतर विशिष्ट वर्ग में स्थापित करता है। यह उनका अदम्य साहस, सहज शक्ति और अरुल ईश्वर-विश्वास ही है, जो कई वर्षों से कैंसर जैसे भयावह रोग से ग्रसित होते हुए भी अविचलित अपने साहित्यिक, सामाजिक कार्यों में पूर्ण की ही भाँति लगे हुए देश-विदेश की यात्रा बड़ी सहजता से कर रहे हैं। मुझे उन से वार्त्ता करते हुए विषाद अथवा निराशा का कोई चिन्ह परिलक्षित नहीं होता।

अन्य में, मैं और मेरा परिवार सर्वशक्तिमान, दयालु परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे सरता — डॉ० कृष्ण कुमार शीघ्र बीरोग्य होकर दीर्घकाल तक इसी प्रकार साहित्य-साधना करते हुए भारत माता का गौरव बढ़ाते रहें। निःसन्देह वह हमारे सच्चे सुहृद और आदरणीय हैं।

— प्रताप कुमार सक्सेना
'साहित्य रत्न', 'विद्यावाचस्पति'
लखनऊ (भारत),

Dr Kumar

I met Dr Kumar through Gitanjali as my husband and young daughter became members many years ago. I was a little apprehensive about attending meetings with my husband and daughter as I do not write poetry, but attended to support my daughter. I was instantly and warmly welcomed by the whole group and in particular by Dr Kumar. His warmth and enthusiasm made me relaxed and valued. I have since attended many functions and meetings and have always been welcomed as part of the Gitanjali family. Dr Kumar in my view is a father figure who has the charisma and the heart that is forever flowing with emotional warmth and encouragement for others. Dr Kumar is like a “candle in the wind” doesn’t matter how hard things become he always has a positive note to say and will always burn bright sometimes in the background and sometimes at the fore front. He has always given priority to others above himself, even through his own ill health. This in itself demonstrates what qualities Dr Kumar has. He is a man that anyone would want as a father, anyone would want as a mentor and above all what a role model for those that are lucky enough to know him but also for those that are yet to discover him.

Nasreen Akhtar

Dr. Kumar se mairi mulakat kuch saal pehlay hui jab hum Wolverhampton mein aa basai. Kuch hi mulakaton mein yeh vazai ho gaya ki kis janoon se unhonnai aur Chitrajai nai Geetanjali ki parvarish ki hai. Yahan per yeh kehna galat nahin ho ga kai inhonnai TUN MUN aur DHAN laga ker Geetanjali ko sthapit kiya hai aur aaj yeh sanstha saari duniya mein apni pehchan kayam ker chuki hai. Dr. Krishan Kumar ji nai sub members ko bahut utsahit kiya likhnai ko. Jis ka nateeja yeh hua ki kae nai laikhik janmai aur kayion nai phir se likhna shuroo ker diya. Iss makam per pahunchnai kai liyai un ko kin kin mushkilon ka samna kerna padaiga, byan se bahar hai. Aaj aisi koi sanstha U K mein daikhnai ko nahin milti. Aakhir mein main OOPERWALAI se yahi DUA karoonga ki in dono ko lambi umar atta fermaain.

Narendra Grover

"I have known Dr Krishna Kumar only for the last 18 months. During this period I have learnt of his enormous contribution in promoting Indian language and culture over the years. He cofounded the Gitanjali Multilingual Literary Circle twenty years ago and has worked tirelessly despite chronic ill health. He has inspired many to join the group and enabled them to publish their work. Many have gone on to win several awards in the United Kingdom and India. He has been facilitated and awarded prestigious awards by various organisations in UK, India and elsewhere. He is the author of several books in Hindi literature including poetry and commentaries on Hindu epics. It is a fantastic feat for him to achieve such a literary status despite originating from a technical profession.

Dr Subodh Jain

"I came to know Prof Kumar as founder of Gitanjali, about six years ago. I admire his dedication for upliftment of Hindi and other regional languages in UK. He is a perfect organiser and he does not waver from his resolution. Once he takes up the task he starts working tirelessly until the task is successfully completed. He has been aptly supported by his wife Chitrajai. I have a great respect for Krishna Kumar ji and I wish him all the best!

Regards

Dr. Anand Kumar Sinha

प्रिय कृष्ण कन्हैया जी ,

ऐसा आयोजन करने के लिए आप और गीतांजलि समुदाय बधाई के पात्र हैं।

डॉ० कृष्ण कुमार एक अत्यंत हंसमुख व परिश्रमी व्यक्ति रहे हैं। उनकी प्रतिभा अनेक रंगों में अभिव्यक्त हुई है। गीतांजलि बहुभाषीय समुदाय की संरचना एवं निर्देशन उनकी हिंदी साहित्य जगत को एक महत्वपूर्ण देन है। किसी भी संस्था को विश्वव्यापी पहचान देना प्रथम श्रेणी के अध्यवसाय ,योग्यता एवं कर्मठता का परिणाम है। इसके अतिरिक्त इस संस्था में अनेक बुद्धिशाली युवा, बच्चे , स्त्रियां व पुरुष का समागम यह स्पष्ट घोषणा करता है कि प्रोफ. कृष्ण कुमार एक जन नायक भी हैं। जिस प्रकार मैंने उनकी टीम के सदस्यों के अतिरिक्त अनेक व्यक्तियों एवं संस्थाओं को इकदिल होकर काम करते देखा उसकी भूरि भूरि सराहना करती हूँ। यह प्रोफ. साहब के सम्मोहक व्यक्तित्व का ही जुगाड़ है।

इस सौभाग्यपूर्ण अवसर पर मैं अपनी और अपने परिवार की ओर से उन्हें बधाई देती हूँ। साथ ही उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ। ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे और उनके कृतित्व की ज्योति सदा उद्दीप्त रखे।

पूरे गीतांजलि परिवार को मेरी मंगल कामना और दीपावली की ढेरों बधाई !

शुभ एवं लाभ !

कादम्बरी एवं इन्दर मेहरा

४. ११. १५. लन्दन

Uncle Krishna Kumar

Uncle Kumar is a wonderful man with many amazing qualities, although most of the time he is very humble and deferential about the brilliant things he does.

Uncle Kumar founded the Gitanjali Multilingual Literacy Circle for poets and writers all around the UK and some other places internationally. The group welcomes people to write in any language, whether it is English, Hindi or Urdu, and gender and any religion to join.

Uncle expressed a deep compassion and empathy towards the family of a teenage girl called Gitanjali, which I am sure many of you are aware of. Gitanjali was a sixteen years old girl and hid her poetry around her room before she sadly died to cancer. Uncle Kumar found this extremely moving, therefore named the group Gitanjali to honour her.

At the age of four, I wrote my very first poem. Following that day, to sustain this natural talent my dad took me to one of the Gitanjali meetings, where I was welcomed with open arms and looked after unconditionally by all members of Gitanjali, but in particular, uncle Kumar himself and aunty Chitra Jee. This gave me a new found confidence to write more poetry and to grow as a writer.

Twenty years have passed, and Gitanjali Multilingual Literacy Circle has become a very successful writing group. But once again, uncle Kumar had a very innovative idea; he decided that children and young people should also be given opportunities to write, as they are future poets. This group, Gitanjali Circle for Young Creative Writers, was founded in 2012, which I am also a member of. Since that time, we have had many functions and meetings, and we are making sound progress. Uncle is seen as a brother figure, father-figure and grandfather-figure to many of us, and he is a friend to all people, regardless of their age.

Thank you so much uncle, for all your help, support, dedication, devotion, sympathy, passion and so many other things that make you are marvellous person.

By Madeeha Saher

Chairperson of Gitanjali Circle for Young Creative Writers

Dr Kumar is being honoured for all; he has done for the community, literature and culture. My heart is so full of respect for him; I don't know where to start. With every passing moment, my fondness and respect for him has grown more and more. Should I call him a Mentor who recognises and polishes budding poet's talent s? A Guru who guides in every walk of life or a parent figure who is always there for you. A perfect human being fully devoted to doing good in society. His knowledge of Hindu scriptures is deep and wide and his skill of imparting this 'Gyan' selflessly has enriched us all immensely.

Honouring his life and achievements in this manner is just a small token of the huge amount of love and respect we all have for him. I am being selfish in praying for his long healthy life as we and the society needs a person like him. May God bestow him with long healthy life? May be reign in the hearts of his well wishers for long time to come.

Vibha Cale

Dr Kumar's qualities and achievements are widely known because many people have seen them and benefitted from their effects. However given that first of all he is himself a researcher, academic and educator then at this moment of reflection seems fitting to examine an infrequently considered perspective of his life that overlays a theme by looking at how his life, his qualities and achievements reflect and demonstrate the ancient principles of Vedic life with its four stages of Student, Householder, Hermit and Renunciant which are properly known as the Ashrama of Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha and Sannyasi. It is fascinating that one of Dr Kumar's persisting traits – seeking the truth of underlying and original meaning – is manifested even in this reflective piece. So often when language and words are used in everyday speech their meaning is slightly and subtly extracted and simplified so that we lose some of their deeper significances. In this way the word Ashram has come into common parlance so that it's now familiar to many people in both the east and the west as a religious centre or retreat; however in this understanding we lose the truer, historical meaning of the word Ashrama which applies to each of us whether we know it or not. The discovery, exploration and re-application of wisdoms and insights such as these are precisely the discipline that Dr Kumar exercises and we might be well advised to follow suit.

When he was little more than an infant Dr Kumar was presented to Mahatma Gandhi and lifted high in the arms of The Father of the Nation and it was in his childhood and youth as a Brahmachari that Dr Kumar displayed the traits of devotion to family and high ethical principles that laid the way for the whole of his life. To this day he enjoys the pleasures and bitterly feels the losses of intimate family life, he continues in ancient tradition to venerate those senior to him and then as now he strives at every opportunity to participate in every celebration and milestone. Similarly his determined resolve to carefully consider the moral dimensions of behaviour was as apparent in his younger years as it is now. Indeed the very name by which he is known was the result of that same search for the highest of standards. As a young man he heard and heeded Mahatma Gandhi's call to work towards the diminution, if not the abolition, of the caste system in Indian society by forswearing the surnames by which an individual's caste is signified. Along with millions of others in the 1960's he dropped the last name that ancestry had bequeathed him, shortening his appellation to two simple familiar names which hide any nobility or humbleness of birth and stand him in solidarity with all men conjoined in equality whether they were supposedly high born or low.

As a Grihastha he demonstrated so much of the modern world. The classic description of the Vedic Life is that each Ashrama is of twenty years however the result of man's endeavours have improved social conditions and individual circumstances such that many of us enjoy good health well past the ancient expectations and accordingly the Grihastha householder years have grown to fill thirty or forty years till duties and obligations have been fully discharged and the prolonged career of the 20th century was a precursor to the privilege of the extended childhood that we see all the more often today.

Throughout those years he was known for his indefatigable determination, in quiet resolve whenever he set his mind to a target he made steady steps till that goal was achieved and in the course of his thoroughly modern career his path exemplified many other aspects of contemporary life. Though travel today is facilitated and enabled to such ease that it is an everyday expectation it was not always so, in the 1970's as part of a courageous generation he joined the diaspora that saw Indians reach all corners of the globe and he made a new home in the UK. He studied and worked in the humble manner typical of migrants y building a future for himself and his own family so that when he then moved to Singapore in the 1980's his teaching and research was award-winning and his contribution to industry was so valuable that he was called on around the world for his expertise in electronics and in particular quality control processes. Through all these years his dealings with others were characterised by the traditional virtue of Seva, service to others. Whether it was towards colleagues or students, towards family or friends Dr Kumar was and remains a stalwart, unstinting and generous supporter of all those in difficulty, hardship and sadness, he makes unflinching efforts to alleviate distress and works tirelessly to help all he meets.

And now as a Vanaprasta his attentions face towards the wisdoms of higher knowledge rather than the worldly knowledge of the householder. The most personal of daily practices and growth have been accompanied by activities that see him return to his childhood love of languages and poetry after a life lived fully in the realms of science. In counterpoint and balance to the mathematical and technical mindsets that he developed over many years he now exercises the most ephemeral and beguiling of creations in the written word and in the fellowship that shares it. Yet again his fraternal approach to mankind is manifested in his intention to nurture a community that explores and expresses verse in many languages, sharing bridges of experience, emotion and understanding that join all people and on occasion unveil insights and truths that have touched the hearts of men since the first inquisitive gaze into the skies or awestruck appreciation of the morning dawn. Just as the exquisite beauty of the well phrased observation raises delight so too does the artist's canvas, the dancer's choreography and the musician's melody. All of these have been part of Dr Kumar's Vanaprasta years and he has supported their efforts and expressions at every turn whilst alongside all of this his devotion to family has remained, constant and ever-present.

And so to come is the Sannyasi. When and in what form it will arrive is unknown. However it is known that he will join that stage of life blessed with the Prarabdha Karma arising from those past. It is with confidence that a wish can be made for his further success and happiness because these rewards are the natural consequence of the years past. Of course I have more reason than most to be thankful because I am his son. As well as being raised on his character, its integrity, intellect and generosity, I have been the recipient of his daily thoughtfulness, affection and protection. So more than any other quarter I can express a deeply-felt gratitude for his presence yesterday, today and tomorrow.

Dr Atul Kumar-Beurg

गीतांजलि बहु-भाषी समुदाय संस्था की स्थापना के लिए डाक्टर कृष्ण कुमार का कार्य, उत्साह और लगन का जीता जागता चित्र है। गीतांजलि को लेकर उनके सपने साकार हों इसके लिए उनका अनवरत संघर्ष और समर्पण सराहनीय है। जिस संकल्प से उन्होंने इस संस्था की स्थापना की और उसे इस ऊँचाई तक ले आए यह उनके जैसे कर्मठ व्यक्ति के लिए ही संभव था। अड़चनों, कठिनाइयों के सामने दीवार की तरह अड़े रहने की उनकी क्षमता पर आश्चर्य होता है। यह क्षमता एक ज़िद की तरह शुरू होती है, जिसे कुछ लोग उनकी कमज़ोरी मानते हैं किंतु वास्तव में यही ज़िद उनकी ताकत और प्रबल इच्छा-शक्ति भी है। आज अत्याधुनिकता की रोशनी से चकाचौंध मानव जीवन मूल्यों के विघटन को देख नहीं पा रहा है, यदि देख भी सके तो वह इस क़दर अकेला है कि विरोध का साहस नहीं जुटा पा रहा है। ऐसे कठिन समय में कृष्ण कुमार जी का अदम्य साहस सबको प्रेरणा देती है। उनकी हर सफलता के लिए बधाई और आगे बढ़ने के लिए हार्दिक शुभ-कामनाएं।

उषा वर्मा

माननीय कृष्णकुमार जी, सभी भारतीय भाषाओं के प्रति आस्था रखते हुए आपने कई कड़्यों के मन में लिखने-पढ़ने का शौक जगाया है और उन्हें मंच प्रदान किया है।

आपकी गीतांजलि बहुभाषीय संस्था ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ पिछले बीस वर्ष से कई कवि सम्मेलन, प्रतिमास गोष्ठी और सदस्यों की पुस्तक-प्रकाशन के माध्यम से ब्रिटेन में ही नहीं विश्व में अपनी विशेष पहचान बनाई है।

आपका रामायण प्रेम भी विश्व-विदित है। भगवान आपको सवस्थ, सुखी दीर्घ आयु दे और आपकी कलम की स्याही कभी न सूखे। स्वस्तिकामनाओं के साथ,

शैल अग्रवाल

Dr. Krishna Kumar—A life of Commitment and Love

By: Suraiya Makhdoom

A legend in his lifetime, Dr Krishna Kumar is not only a multi talented, multi tasked and multi faceted personality, but he is an institution in himself. Despite being an engineer by profession, Dr Kumar has excelled in the world of literature, art, history, to name but a few of his lifelong passions and pursuits. GMLC is the crown in the jewel of his achievements, which he founded in 1995 with his illustrious wife, Chitra Kumar. It's a multi-lingual society for the promotion of poetry and literature at large. In 2005 GMLC held a multi-lingual International conference in Birmingham, in which poets were invited from India as well, including a Sindhi poet from New Delhi, Mr. Motilal Jotwani. This delighted the Sindhi community who got a chance to meet a celebrity from their linguistic background and listen to his poetry. Dr Kumar is a very compassionate and helpful person. People approach him for all sorts of issues and both Dr Kumar and Chitra never disappoint them.

DR. KRISHNA KUMAR - LOYALLY SUPPORTED BY CHITRA KUMAR -
HAS GIVEN AN EXCELLENT SERVICE TO GMLC - FROM ITS INCEPTION
TILL THE PRESENT DAY ! PRAY HE STAYS IN GOOD HEALTH AND
CONINUES TO GUIDE GMLC TO EVEN GREATER HEIGHTS !
BEST WISHES,
PRAFUL MODI

डॉक्टर कृष्ण कुमार : व्यक्तित्व और कृतित्व

डॉक्टर कृष्ण कुमार जी ,

मैं अकेला ही चला था जानिबे मंज़िल मगर
लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया

मजरूह सुल्तानपुरी का उपर्युक्त शेर जब - जब मेरे ज़ेहन में उबरता है
मुझे तब - तब आपका ' गीतांजलि ' को उत्तरोत्तर ऊँचाइयाँ प्रदान करना
याद आता है।

शुरु - शुरु में गीतांजलि समुदाय की बैठकें आप के घर
में होती थीं। कोवेंटी के डॉक्टर शेखर नाथ बासु के साथ दो - तीन बार मुझे
उनमें शिरकत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आप , की लगन , शुचिता
और कर्मठता से मैं प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। धीरे - धीरे आप के समीप
में आता गया और आप की रचनाशीलता के साथ - साथ आप की उदारता और
संवेदना से भी मेरा परिचय होता गया। जब कभी आप की आवश्यकता पडी , मुझे
मिली। हर क्षेत्र में आप का योगदान सराहनीय ही नहीं , उल्लेखनीय भी है।

कल रात ही आप के व्यक्तित्व और कृतित्व के प्रति मेरे हृदय से
कुछ अशआर फूटे हैं। आप को मैंने जैसा देखा - पाया है ये उसी का
प्रतिफल हैं। कृपया इन्हें सौगात समझ कर स्वीकार कीजिये -

हिंदी को सम्मान दिलाना आप से कोई सीखे जी
जग में उसकी शान बढ़ाना आप से कोई सीखे जी

दुनिया वालों का यश पाना आप से कोई सीखे जी
संस्था या समुदाय चलाना आप से कोई सीखे जी

कितने ही रचनाकारों के आप प्रेरणा स्रोत बने
गुरुओं जैसा पथ दिखलाना आप से कोई सीखे जी

यूँ तो अच्छे - अच्छे लिखने वाले देखे हैं लेकिन
बेहतर लिखना और लिखाना आप से कोई सीखे जी

यूँ तो होते हैं हर इक से अच्छे - बुरे नाते लेकिन
प्रिय से प्रिय सम्बन्ध बनाना आप से कोई सीखे जी

कोई कठिनाई में हो या कोई दुविधा में लेकिन
हर इक का ही हाथ बँटाना आप से कोई सीखे जी

जैसा है व्यक्तित्व आप का वैसा ही है कर्म सखे
ऐसी अद्भुत खूबी जुटाना आप से कोई सीखे जी

प्राण शर्मा

3 Crakston Close, Coventry CV25EB

जन्मदिवस पर बधाई

गीतांजलि के संस्थापक, अध्यक्ष और कर्णधार,

हम सब के आदरणीय डॉ कृष्ण कुमार।

20 वर्षों का अथक परिश्रम रंग लाया है,

समस्त विश्व ने गीतांजलि संस्था को सराहा है।

भाषा समन्वय का अति कठिन अभियान

रचनाकारों को मिला प्रोत्साहन और सम्मान।

भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के कर्मठ सिपाही,

आपको 70 वें जन्मदिवस पर हार्दिक बधाई।

बुद्धिजीवी, कवि, लेखक और कहानीकार,

आपका जन्मदिवस आयें अनेक बार।

गीतांजलि बनी हैं एक अनूठी संस्था,

सकल विश्व कर रहा इसकी प्रशंसा।

सद्भावना से आगे बढ़े गीतांजलि परिवार,

डॉ कृष्ण कुमार बने रहे इसके कर्णधार।

शुभकामनाओं सहित

स्वर्ण तलवाड़

परवेज़ मुज़फ्फर

गीतांजलि फेमिली मैम्बर

डॉक्टर कृष्णा कुमार (भीषम पितामह) के लिये

जशन ऐ डॉक्टर कृष्णा कुमार के अवसर पर

हिंदी अदब का ताज महल डॉक्टर कृष्ण कुमार

कीचड़ में खिला कँवल डॉक्टर कृष्ण कुमार

हिंदी उस की ढाल हे ,हिंदी उस का हे कमाल

ज़बान ऐ हिंदी का जबल डॉक्टर कृष्ण कुमार

यह किसी भी मज़हब से नफरत नहीं करता

गो पी ता हे गंगा जल डॉक्टर कृष्ण कुमार

हिंदी की तकदीर हे हिंदी की शमशीर

रहता हे खड़ा अपने ही बल डॉक्टर कृष्ण कुमार

सर तापा जान हे भगवान का यह वरदान हे

झुकता हे पेश ऐ अजू जल डॉ कृष्ण कुमार

हिंदी की तकलीफ में पीछे नहीं हड़ता

हर मुश्किल का निकाले हल डॉक्टर कृष्ण कुमार

जब कोई इरादा करता हे पूरा करता हे

यह मालिक ऐ अज़मो अम्ल डॉक्टर कृष्ण कुमार

गम हो या कोई मुश्किल खोफ नहीं खता

हर रहा में होता हे सफल डॉक्टर कृष्ण कुमार

जान भी देने को तैयार हिंदी की तरक्की में

गीत गाता हे हर पल डॉक्टर कृष्ण कुमार

Gitanjali Multilingual Literary Circle-----Founders—Dr K Kumar and Chitra ji
I met Dr Kumar for the first time in 1997—more than 18 years ago at a meeting—
goshti—at his house. The room was full of people, who were nearly all strangers
to me. I soon found that poetry reading in different languages was the main part
of these meetings. After brief introductions, the newcomer was invited to recite
their poem. All this initially, felt very uncomfortable. I somehow survived that first
encounter. Not only that, I have been attending regularly since then. I feel that I
have known Dr Kumar and his wife Chitra ji for ever. Hundreds of others have
had similar experiences and have become a part of this institution known as
Gitanjali Multilingual Literary Circle. How did this come about?

I should say that Dr Kumar is an institution by himself .He has ensured that that
the foundations of this group stay strong.

It was essentially because Dr Kumar had a clear vision of what his expectations
were from this group of people. He would earnestly start on his efforts about
encouraging, cajoling and building the fragile egos of new entrants as well as the
existing ones .He seemed to have endless time for this and the monthly meetings
at his house lasted three to four hours -followed by a hot meal. In all this,
Chitraji played her welcoming part to perfection. No wonder that the group
became one big family, with new people joining all the time.

It was not just poetry; story writing also became a feature of this group. A whole
new world of new literary experiences became available to the members of this
group and nearly every single person benefited. People who had never written
poetry, started writing. A substantial number of people have had their books
published. A number of anthologies edited by Dr Kumar have included the poems
from members of the group. To see your name in print is highly flattering and in
all this Dr Kumar not only encouraged the participants, but also took personal
pride in their achievements. He somehow, never lost hope and has remained a
constant source of advice and encouragement.

It is not difficult to be in awe of his tremendous skills and achievements. Besides
this group, he had his own work at the university and his own prose and poetry
writing .He seemed to take all this in his stride .During his visits to India, he
established contacts with the literary institutions, all over India, and we as a
group benefited from these associations. Over the years, there have been several
two to three day long conferences and seminars and workshops, which have kept
the members busy and have greatly enhanced their literary experiences.

It has been a wonderfully educational, colourful and enjoyable journey. I feel
tremendously grateful and fortunate to have been a part of it. I look forward to
future literary adventures and development of GMLC, by continuing to remain part
of this unique group.

डॉ. कृष्ण कुमार एक कवि के रूप में

डॉ. कृष्ण कुमार भारत में उत्तर प्रदेश के बहराइच शहर में जन्मे तथा वहीं पर स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। 1954 में बहराइच के स्थानीय अखबार में एक सत्य घटना पर आधारित एक अजीबोगरीब रोमांचक कहानी छपी। बहराइच के एक परिवार की लड़की के विवाह में डकैती हुई तथा दहेज का सामान लूटा गया। वही सामान जब लड़की को शगुन में मिला तो मालूम हुआ कि डाकू लड़के वाले ही थे। इस कहानी का तेरह वर्षीय कृष्ण कुमार के सम्बेदनशील हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा और वहीं से उनकी लेखनी का अंकुर फूटा। उन्होंने कुछ नाटक लिखे तथा अपने स्कूल में नाटक मंडली की स्थापना की। 1955 में उन्हें आर्यसमाज के जलसे में कविता पाठ के लिए न्यौता आया। कविता तो वे उस समय नहीं लिखते थे किन्तु उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर कविता लिखी और फिर कविता लिखने का दौर रुका नहीं। अपनी बड़ी बहन के आग्रह पर उन्होंने एक कविता लिखी जिसका शीर्षक था 'सप्त सुरों के ऊपर चढ़कर मुझे बता दो।' यह कविता डॉ. कुमार को अति प्रिय है। उनकी बहन ने यह कविता अपने संगीत के गुरु जी को भेंट की।

1957 में डॉ. साहिब की कविताओं का अच्छा संग्रह एकत्रित हो गया था और 1958 में उनका कविता संग्रह प्रकाशित होना चाहिए था किन्तु विधि का विधान कुछ और था। 1999 में उनका प्रथम कविता संग्रह 'मैं अभी मरा नहीं' प्रकाशित हुआ।

1958 में आप लखनऊ में पढने के लिए चले गये। आप हिन्दी, संस्कृत, साहित्य और दर्शन शास्त्र विषयों का अध्ययन कर अपनी लेखन प्रतिभा को समृद्ध करना चाहते थे किन्तु परिवार वालों के दबाव से आपने विज्ञान के विषयों में डिग्री प्राप्त की और इंजीनियर बने। आपकी साहित्यिक लेखन प्रतिभा और विज्ञान की शिक्षा आपके जीवन में बड़ी उथल-पुथल लाई। लखनऊ में आपकी मुलाकात बहुत से जाने-माने प्रतिष्ठित साहित्यकारों से हुई जिनमें प्रसिद्ध उपन्यासकार अमृतलाल नागर और यशपाल थे। 1958 में हाथरस में आपकी मुलाकात सिद्ध कवि धर्मन्द् मुन्धा से हुई। इनकी रचनाओं से डॉ. साहिब का कवि हृदय प्रभावित हुआ। लखनऊ में आपकी मुलाकात हिन्दी फिल्मों के गीतकार प्रेम धवन से हुई। प्रेम धवन जी ने डॉ. साहिब को फिल्मी गीत लिखकर पैसे कमाने का प्रलोभन भी दिया।

बहुमुखी प्रतिभा वाले डॉ. कृष्ण कुमार ने नाटक, लेख, आलेख, निबन्ध, समीक्षा, कहानी और कविता सभी विधाओं में हिन्दी साहित्य का सृजन किया। 1995 में उन्होंने बरमिंघम यू.के. में 'गीतांजलि बहुभाषीय साहित्यिक समुदाय' की स्थापना की तथा अपनी लेखनी को आगे बढ़ाते हुए बहुत से साहित्य प्रेमियों को कविता, कहानी लिखने की प्रेरणा दी और उन्हें साहित्यिक मंच प्रदान किया। इसके फलस्वरूप आज गीतांजलि के लगभग सभी सदस्यों की रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं।

कृष्ण कुमार जी के छह कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं—'मैं अभी मरा नहीं', 'चिंतन बना लेखनी मेरी', 'लेकिन पहले इन्सान बनो', 'एक त्रिवेणी ऐसी भी', 'अक्षर अक्षर गीत बने' एवं 'नर्तन करते शब्द'। इनकी कविताएँ विज्ञान और साहित्य प्रेम का अनूठा संग्रह एवं दर्शन और चिंतन से भरपूर हैं।

इनकी पुस्तक 'लेकिन पहले इन्सान बनो' में भौतिकवाद के प्रभाव से मानवता और घटते आध्यात्मिक मूल्यों का सजीव चित्रण है। 'एक त्रिवेणी ऐसी भी' काव्य संग्रह की तीन मुख्य धाराएँ हैं। पहला, जीवन-मृत्यु का दर्शन। दूसरा, भारतीय अध्यात्म का दर्शन तथा तीसरा, सामयिक विचारों का दर्शन। यह एक ऐसा काव्य संग्रह है जिसके माध्यम से उनके कवि मन में झांका जा सकता है। जीवन की उथल-पुथल, समाज के बदलते मूल्यों ने उनके कवि हृदय को अत्यन्त प्रभावित किया है। उनकी कविता 'अतीत की कुंठा' में काल की गतिशीलता का सजीव चित्रण मिलता है। श्री कृष्ण की पत्नी जामवंती दहेज में श्यामंतक मणि लाई थी जिसको बहुत से लोग कोहिनूर हीरा मानते हैं जो अब लंडन की रानी के पास है। कवि ने कहा—

'सोने की चिड़िया कहते थे

राम कृष्ण की जन्म भूमि को

स्वागत करके गले लगाया

हमने हर आने वाले को।
चिड़िया अब निर्जीव हो गई
प्राण कहाँ से उसमें डालूँ
और बताओ तुम यदुनंदन
जो दहेज में तुमने पाया
उसको वापस,
कैसे पाऊँ?’

‘पीड़ा तुझे न जाने दूँगा’ इस कविता में कवि ने पीड़ा को नख-शिख तक दुल्हन की तरह सजाया है, लक्षण और व्यंजना के आधार पर कुछ नये प्रतीकों का प्रयोग किया है।

‘पीर बन दुल्हन
मेरे दर पर खड़ी है
हैं तेरा स्वागत
तुझे जाने न दूँगा।
कष्ट की मेहंदी अभी सूखी नहीं
दर के घुंघरू
अभी तक बज रहे
और घुंघट वेदना का साथ है
सर पे सेहरा यातनाओं का धरे
सुंदरी सुख से
ठगी जाती रही।’

‘वह मेरा बेटा है’ इस छोटी-सी कविता में प्रतीकों के आधार पर कृष्ण कुमार जी ने आज के समाज का दृश्य खींचा है, पावन रिश्तों का बदलता स्वरूप दर्शाया है—

‘मैंने यह
बहुधा देखा है
मुझसे आ
मेरा अतीत बातें करता
झगड़ा करना
और
कहा करता है प्रतिपल
वर्तमान को
भाग्य न समझो
वह मेरा
प्यारा बेटा है।’

‘मृत्यु एक प्रश्न’ कविता में कवि ने कहा है—

भारतीय जीवन दर्शन के अनुसार मृत्यु का स्वागत होना चाहिए क्योंकि शरीर में कैद आत्मा के स्वतन्त्र होने की प्रक्रिया को जन्म देने वाली मृत्यु ही होती है।

‘मृत्यु के आने पर
रोने चिल्लाने
एवं आँसू बहाने की
यह पुरातन प्रथा
कब और कैसे चली
क्यों मिलती नहीं
इतिहास के पन्नों में’

कवि कृष्ण कुमार की अधिकतर कविताएँ हिन्दी के अतुकांत छंद शिल्प में लिखी गई हैं। इसके साथ उन्होंने गीत और उर्दू की बह में नज्म के शिल्प का भी प्रयोग किया है। विचारों की गहनता से भरपूर उनका वैज्ञानिक मन दर्शन की गतियों में सुख तलाशता है। प्रश्नाकुलता उनका मूल स्वर है। जीवन, जगत और अध्यात्म उनकी कविताओं की विषयवस्तु है। 'अक्षर अक्षर गीत बने' गीत संग्रह कृष्ण कुमार जी की छवि को गीतकार के रूप में निखारता है। ये सामाजिक संवेदनाओं को उजागर करते हुए आत्मा की प्यास को बुझाने वाले गीत हैं। कवि ने लिखा है—

'जीवन एक गीत है जिसमें

तरह तरह के स्वर होते हैं।

कर्म धर्म की लडियाँ होतीं

कुछ पाते कुछ खोते हैं।'

सच्चे प्रेम के विषय में कृष्ण कुमार जी कहते हैं कि प्रेम में हारना ही जीत है।

'जीत न पाया मैं अपने से

तुमसे मैंने हार मान ली....

हैं जीवन में दवन्दव हजारों

और उतनी बाधाएँ हैं।

बुनते जाल और की खातिर

लेकिन खुद ही फँस जाये हैं।

मृग कस्तूरी ढूँढ न पाया,

बनी बड़ी दीवार मान ली॥'

जीवन में हमें क्या-क्या चाहिए, जीवन हमें क्या देता है और हम उसके लिए क्या करते हैं। जीवन, जगत और अध्यात्म के गहन विचारों के दर्शन और चिंतन से भरपूर डॉ. कृष्ण कुमार जी की कविताएँ हिन्दी काव्य जगत के लिए अनुपम उपहार हैं। अन्त में उनकी दो कविताओं की चन्द्र पंक्तियों से मैं अपनी कलम को विराम देती हूँ—

दर्पण की भाषा

अलौकिक

बहुरंगी वस्त्रों से सुसज्जित

सँवरते हुए

शरीर को साक्षात् देखकर

दर्पण ने कहा

'तन तो सुन्दर है

जरा मन तो दिखाओ'।

आदि ग्रंथ

एक मैं

अनेक तुम

मैं शरीर

प्राण तुम

तुम न रुक सके कभी

मैं न चल सका अभी

पर अजब है व्याकरण

चल रहे हैं साथ साथ

—स्वर्ण तलवाड़

गीतांजलि बहुभाषीय साहित्यिक समुदाय, यू.के.

डॉकृष्णकुमार

भाषा साहित्य और राष्ट्रीयता भाषायी समन्वयता एवं वसुधैव कुटुंबकम् की भावना को सच्चे अर्थों में जीने और पोषित करने वाले डॉ कृष्ण कुमार विश्वपटल पर एक जाना माना नाम है।

आप विज्ञान के छात्र रहे। जीविकोपार्जन के शोध ने उन्हें इंग्लैंड पहुँचा दिया। इससे भारत के प्रति उनकी निष्ठा किसी तरह कम न हुई। मातृभूमि और मातृभाषा के प्रति उनका अगाध प्रेम की परिणति में उनकी संस्था गीतांजलि बहुभाषीय साहित्यिक संस्था के जन्म के रूप में हुई। उसके बाद वे पूरी तरह भारतीयों की सार्वभौमिक एकता और अखंडता समर्पित हो गए। उन्होंने इसी मुद्दे को केंद्र में रखकर अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया अनेकों के संयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेशों में हिंदी के प्रचार-प्रसार और सेवाओं पर भारत सरकार ने आपको अनेक बार पुरस्कृत किया है। हिंदी के प्रति आपके विशिष्ट प्रेम और योगदान को रेखांकित करने के लिए आपको देशविदेश में अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। जिसकी सूची बहुत लंबी है।

आप न केवल एक कुशल संयोजक और विदेशों में हिंदी की मशाल के पुरोधा हैं अपितु सच्चे अर्थों में सर्जक हैं। आपने अनेक प्रवासी लेखकों को प्रोत्साहित किया तराशा और प्रस्तुत किया। आपने अनेक पुस्तकों का संपादन किया है और आप स्वयं हिंदी के एक सुप्रतिष्ठ साहित्यकार हैं। आप एक कुशल लेखक संवेदनशील कवि कहानीकार एवं निबंधकार के रूप में विख्यात हैं। आपके पाँच काव्यसंग्रह तीन निबंध संग्रह एवं दो कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त पत्रपत्रिकाओं में भी आपके विभिन्न विषयों पर पचास से अधिक निबंध लेख कहानियाँ और काव्य रचनाएँ आदि प्रकाशित हैं। डॉ कुमार का रचना संसार व्यापक है। इतने सारे लेखों/निबंधों का एक आलेख में संपूर्ण व्याख्या विश्लेषण और मूल्यांकन करना किसी भी तरह संभव नहीं है। आपके संपूर्ण कृतित्व पर भारत में पीएच डी के शोध हो चुके हैं।

अतः हमने इस आलेख को डॉ कृष्ण कुमार के निबंधों पर केंद्रित किया है। भाषा साहित्य और राष्ट्रीयता तथा आज का विचार बरमिघम पोस्ट नामक दैनिक समाचार पत्र में स्थायी स्तंभ के रूप में से तक प्रकाशित आलेखों का संग्रह नामक निबंध संग्रहों के अतिरिक्त आपका एक और अत्यंत महत्वपूर्ण वैचारिक निबंध संग्रह प्रवासी साहित्य कितना प्रवासी प्रकाशनाधीन है।

आपके निबंधों के मूल में भारतीय चेतना गहराई से अवस्थित है। इनमें धर्म संस्कृति जातीय अस्मिता के प्रश्नों को भारतीयता और वैश्विकता के परिप्रेक्ष्य उठाया गया है। पूँजीवाद उपभोक्तावाद मीडिया क्रांति भाषायी उपनिवेश भारतीय भाषाओं संस्कृति और परंपरा को नष्ट कर रहे हैं। यही बात राष्ट्रभक्त डॉ कुमार की चिंता का कारण है। वे एक तलस्पर्शी चिंतक हैं अतः वे साथासाथ समाधान भी सुझाते चलते हैं।

गंभीर भावों और विचारों के संप्रेषित करनेवाले निबंधों की भाषा में प्रगल्भता संदर्भ बहुलता प्रसंगप्रभत्व आदि के गुण स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। शोध प्रविधि के अनुरूप तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर अपना मत स्थापित करना डॉ कुमार का वैशिष्ट्य है। संक्षेप में कह सकते हैं कि डॉ कुमार के निबंध समय के ज्वलंत प्रश्नों को उठाते हैं और पाठक को युग की माँग के अनुरूप अपनी जातीय अस्मिता के विविध आयामों की उदात्तता का स्मरण कराना चाहते हैं ताकि भारतीयों की सार्वभौमिक अखंडता अक्षुण्ण रह सके।

डॉ वंदना मुकेश शर्मा

